NATION

Collapsed crypto exchange FTX hit by rogue transactions

2

"Things will continue to simmer after the FTX crash," said Alan Wong, operations manager of Hong Kong Digital Asset Exchange.
"With a gap of \$8 billion between liabilities and assets, when FTX is insolvent, it will trigger a domino effect, which will lead to a series of investors related to ETX coins bankrupt related to FTX going bankrupt or being forced to sell assets. In

an illiquid bear market, the event will lead to a new round of cryptocurrency declines, as well as a liquidation

declines, as well as al liquidation of leverage."
Since its founding in 2019. FTX had raised more than \$2.019. its holding Sequoia, SoftBank, Black-Rock and Temasek. In January, FTX had raised \$400 million from investors at a \$32 billion valuation. SoftBank and Sequoia Capital said they were marking their investments in FTX down to zero. Cryptocurrency to zero. Cryptocurrency exchange Coinbase Global will

also write off the investment its markets remain too small and too siloed to cause contagion in financial markets, with an \$890

ties regulator is investigating

ties regulator is investigating FIX.com's handling of customer funds amida liquidity crunch, as well its crypto-lending activities, a source with knowledge of the inquiry said.

Hedge fund Galois Capital had half its assets trapped on FIX, it was reported on Saturday, citing a letter from co-found fewin Zhou to investors and estimating the amount to be made in the control of the

mating the amount to be around \$100 million.

FROM THE FRONT PAGE

Oct inflation likely below 7%, says Das

below 7%, says Das
"Is it the time to change the
whole regime? I would say that
2-6%, with 4% as the main target, makes a lot of economic
sense. And we should not think
of shifting the goalposts
because you we have not been
able to meet it." Das said, speaking at an event in the national
capital." There is a dehate internationally that the interest rates
ingly tremain on the higherst
committed to the 4% target,
which gives the central bank
chough legroom to maneuverin
a crisis situation," he said. In the
September retivent wo of the six a crisis stituation," he said. In the September review, two of the six Monectary Policy Committee (MPC) members argued for a pause in rate hike. While Jayant Varma held that further rate hikes may derail a nascent growth recovery, Ashima Goyal felt the MPC should wait and watch tog auge whether the policy action so far is sufficient or not. He said the steps taken by the RBI over the last six to seven months and the supply-side months and the supply-side months and the supply-side measures by the government haveaided in effectively dealing with the prolonged, high inflation. Das comments come a few days after the MPC held a special meeting to draft the report to be sent to the government for not maintaining inflation within prescribed limits for three quarterians are useful for the sent to the comment of the comme ters in a row. It is for the first time since implementation of the monetary policy framework in 2016 that the RBI will submit

such a report.
"The unexpected Ukraine conflict had put pressure on supply chains and also sent crude oil prices in an upward opiral, leading to massive shift in the inflation scenario. These are the reasons mentioned in the such a report.

the inflation scenario These are the reasons mentioned in the report explaining as to why the central bank could font adhereto the inflation target; Das said.

Dasstuck to the GDP growth estimate of 7% for the current financial year, as mentioned in the latest MPC report. The EU is today facing a recession situation... but there are possibilities that they will avoid it. The US is today facing a recession situation... but there are possibilities that they will avoid it. The US is today facing a recession situation... but there are possibilities that they will avoid it. The US is today facing a recession situation... but there are possibilities that they will avoid it. The US is loding stable, but there are other countries also where the growth has slowed. So far as India is concerned, overall macroeconomic fundamentals and the financial sector stability remain resilient; Das said.

Defending the RBI's intervention in the currency market, Das said that it is incorrect to say that the central bank has used the foreign exchange reserves indiscriminately. "We picked up these reserves only for this rainy day. And when it rains, have said that there has to be proper coordination between the monetary authorities, and coordination does not mean compromise of autonomy." Nobody interferes in each other's work, but we share our views, "he said." other's work, but we share our views," he said.

Carmakers picking CNG over diesel

Hyundai sells the Grand i 10 NIOS and the Aurain CNG — the Grand i 10 NIOS was earlier available in diesel. Automotive analysts told #Ethat despiterising prices of CNG — these have risen 51% in one year, from ₹52.04 per kg to ₹78.61 per kg to ₹

over petrol and have a lar lower maintenance cost over diesel. Carmakers also know that elevated CNG prices may be a temporary phenomenon — due to the spike in international prices of natural gas triggered by the Russia-Ukraine war.

"As far as product develop-ment is concerned, we plan years in advance," Shashank Sriyearsi nadvance, "Shashank Sri-vastava, senior executive direc-tor, marketing & sales, Maruti Szuziki India, told FE "Geopolit-ical factors usually have a tem-porary impact." He added that despite the recent spike in gas prices and the higher sticker price of CNG carsivis-à-vispetrol cars, the total cost of operation of a CNG carsivis-a-visp lower than petrol of a CNG car is lower than petrol and diesel. CNG was earlier assoand diesel LNG was earner asso-ciated only with entry-level cars, the owners of which are very sensitive to high running costs. But with Maruti Suzuki launch-ing premium cars like the Baleno and the XL6 in CNG, and Toyota launching the Glanza and the Urban Cruiser Hyryder n CNG, that doesn't appear to be

the case anymore.
"Be it buyers of entry-level "Be it buyers of entry-level cars or those of more premium cars (in the ₹10-15 lakh seg-ment), all are sensitive to opera-tional costs," said Som Kapoor, EY India Automotive, Future of Mobility leader (consulting), and partner. "It's not that owners of expensive cars don't want to expensive cars don't want to save on fuel costs. Alto to them already go in for aftermarket retrofitting of CNG kits. Carmakers know this, and are now offering buyers better and safer products than what they would get in the aftermarket. While there is no structured data on how many cars are turned to CNG in the aftermarket the risk of the company o ing demand for CNG cars can be auged from the fact that, in August, the ministry of road transport & highways issued a notification allowing retroson BS6 gasoline vehicles and replacement of diesel engines with CNG/IPG engines in vehicles last sharp and the state of the gauged from the fact that, ir

India Incrises to take on green challenge

"In 2021, JPMorgan Chase facilitated more than \$100 bil-lion for green activities like renewable energy, energy effi-ciency and sustainable trans-portation, doubled our green investment banking activity andwas the largest underwriter of green bonds. We help mobilise capital to reduce car-honitensity ingliand gas elecmobilise capital to reduce car-bon intensity in oil and gas, elec-tric power and auto manufac-turing portfolios y 2030. We helped Indian issuers raise over \$7.2 billion across green, social, sustainable and sustainability-linked bonds (SLB) issuances in 2021. We led India's first SLB with a \$400-cmillion pote for with a \$400-million note for Ultratech Cement in 2021. This year, we have led three transac-tions in 2022 YTD, including tions in 2022 YTD, including Shriram Transport's 5475-mil-lion social bond, India clean energy's \$400-million green bond and Greenko Energy's \$750-million green bond's said Kaustubh Kulkarni, senior country office, India & VC, Asia Pacific, JP Morgan. As part of managing indirect climate risks, ICICI Prudential Life Insurance sumedad an SCG-foresat fund launched an ESG-focused fund named 'ICICI Prudential Susnamed 'ICICI Prudential Sus-tainable Equity Fund' last year.

"As the first Indian insurance company to become a signatory to the UN Principles for Respon-sible Investment (UNPRI), we saved 6,748 tonne of carbon ootprint from FY2020 to FY2022 through initiatives directed atreducing energy con-sumption, water conservation and waste management." said

arrected a treuting energy consumption, water conservation and waste management," said Judhajit Das, CHRO, ICIO Prudential Life insurance.

The construction sector in India accounts for over 22% of yearly CO2 emissions from overall economy. Construction-related emissions can be reduced with the use of prefabricated components, and recyclable/reusable building materials. "Prefabrication has transformed the global construction sector to build structures and facilitated its evolution. India has a target of accomplishing net-zero by 2070 and requires adopting this to elevate construction spractices. The materials used in construction sector practices. The materials used in construction practices of the property o struction may be reused to make buildings environmentally ben-eficial," says Nikhil Bothra, direc-tor, Epack (PreFab), who has tor, Epack (PreFab), who has worked on airports under the UDAN scheme using prefab structures. Hindon airport in Ghaziabad is a case study in prefabricated buildings.

"Traditional materials like steel, cement, bricks and lime account for over 80% of construction-related emissions. We are working on techniques."

struction related emissions. We are working on techniques based on the use of alternate materials like geosynthetics that ensure energy-efficient infrastructure. The government has plans to expand the national highway network by 25,000 km in 2022-23 and development of roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways and logistical infrastructure. We provide various solutions enabling vide various solutions enabling the use of local material with lov overall cost, eventually reducing carbon footprint by 40-60%," adds Vikramjiet Roy, MD, Maccaferri India, which manufactures and supplies gabions and associated wire-

New De**l**hi

mesh products to the global

mesh products to the global construction industry. Consumergoods are becoming 100% plastic waste-neutral. Dabur became the first to collect, process and recycle around 27,000 mt of post-consumer plastic waste in India in 2021.—22. "We have targeted to become plastic waste spositive by collecting, processing and recycling more plastic waste than the amount wesell in product packaging in a year. Our target is to collect 35,000 mt of post-consumer plastic waste and have already collected over 30,000 mt by November 20.22." Said Mohit Malhotra, CEO, Dabur India. Dabur India aims to achieve net-zero in biodiversity by 2030 and become water-positive b by 2030 and become water-pos LNJ Bhilwara Group through

LNJ Bhilwara Group through Bhilwara Energy has commis-stoned two hydro, three wind power projects with two solar power plants in the planning phase in different parts of India, aggregating a total of more than \$60 MW.Asa result, the average annual GHC emission reduc-tion of the aggress of the contraction. tion of the group stands at 927,362 (tCO2e) and generates more than 1,200 million units more than 1,200 million units of clean energy annually. Mother Dairy is limiting plastic usage by replacing straws with paper. "Paper straws are four times more expensive. We are absorbing the increased cost and do not plan to increase the price of associated products. Our token milk (branded loose milk). Greing since 1984 has belined offering since 1984 has helped

token milk (branded loosemilk) offering since 1984 has helped saveapprox 700,000 kg of plastic coming into the environment every year," said Manish Bandlish, MD, Mother Dairy Fruit & Vegetable.

Real estate players are building sustainable and net-zero projects for a reduced carbon future. A recent study by JLL, 'Sustainable eral estate: India's response to a greener future,' Sustainable real estate: India's response to a greener future; (33%) agree that they proactively prioritise locations to reduce carbon emissions in the future and investors (65%) agree to prioritise investing in cities that are climatchange progressive.

Green real estate assets in India have grown dramatically over the previous decade, with total office stock expanding to 1316.

India have grown dramatically over the previous decade, with total office stock expanding to 31% as of September 2021 from 24% in 2011. The real estate arm of the Mahindra Group, Mahindra Lifespaces, has launched net zero energy homes called Mahindra Eden in Bengaluru. The project incorporates climate responsive design and smart interventions to reduce energy demand by 33%, and will generate 3% of the energy requirement onsite with solar norftop Yvand small wind turbines. Godrej Construction has recycled over 25,000 mt of concrete debris by implementing circular economy principles in the construction materials line. Club Mahindra's eight resorts are green-certified by IGBC platinum and all the resorts will get certified by 2025.

The Coca-Cola Company

aregreen-certified by IGBC plat-inum and all the resorts will get certified by 2025.

The Coca-Cola Company has partnered with Zepto in India to 'collect back' empty PET bottles of any brand from consumers. The initiative, launched in select locations in Mumbai, will be scaled to other markets in India soon. The Coca-Cola Company's World Without Waste initiative is aimed at finding solutions to global challenges of packaging sained, at finding solutions to global challenges of packaging consumer packaging to be recyclable by 2025, use 50% recycled material in all packag-ing by 2030. Green Yodha is a flagship sustainability initia-tive by Schneider Electric India aimed at rallying businesses, institutions and like-minded individuals or a support of the control of the con-trol of the control of the control of the con-trol of the control of the control of the con-trol of the control of the control of the con-trol of the control of the con-trol of the control of the control of the con-trol of the control of the control of the con-trol of the control of the control of the con-trol of the control of the control of the con-trol of the control of the control of the con-trol of the control of the control of the con-trol of the control of the control of the con-trol of the control of the control of the con-trol of the control of the control of the con-trol of the control of the control of the control of the con-trol of the control of the contro institutions and like-minded individuals to ramp up the adoption of clean-energy, electrification, energy-efficiency and other climate-positive technologies. The brand educates, empowers and enables stakeholders on the impending climate risis, highlighting the need to adopt sustainable business practices and creating a roadmap for them to start their sustainability journey.

PM: India on way to be 3rd biggest economy

The PM added: "The needs of common people and building better and modern infrastructure are entwined to it." He said blue economy has for the first time become a top priority. "Blue economy has infinite opportu-nities which the country is now trying to grab. The coastline has been our gateway to prosperity forages and we have undertaken projects worth thousands of crores of rupees for port-led development," he added.

ventures arm made in FTX in 2021, according to a person familiar with the matter. Bitcoin fell below \$16,000

for the first time since 2020 after Binance abandoned its rescue deal on Wednesday. On Sat-urday it was trading around \$16,831, down by more than 75% from the all-time high of \$69,000 it in November last year.FTX stoken FTT plunged by around 91% this week. Shares of crystocurrecy and blockchain. cryptocurrency and blockchain related firms have also declined. "We believe cryptocurrency

billion market cap in compari-sin to US equity's \$41 trillion," Citi analysts wrote. "Over four years, FTX raised \$1.8 billion from venture capital and penyears, FTX raised \$1.8 billion from wenture capital and pension funds. This is the primary way financial markets could suffer, asit may have further minor implications for portfolio shocks in a volatile macroggime." In its bankruptcy petition, FTXTrading said it has \$10 billion in \$50 billion in assets, \$10 billion in \$50 billion in laibilities and more than 100,000 reditors. John I Ray III.a res turing expert, was appointed to take over as CEO. The US securi-

SHRISTI

Regd. Office: Plot No. X - 1, 2 & 3, Block-EP, Sector V, Salt Lake City, Kolkata-700 091 CIN - L65922WB1990PLC049541 Phone No.: (033) 4020 2020 / 4015 4646, Fax No.: (033) 4020 2099 E-mail: Investor.relations@shristcorp.com, Website: www.shristicorp.com

Shristi Infrastructure Development Corporation Limited

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2022

- 7	,	STANDALONE					CONSOLIDATED						
SI. No.	Particulars	Quarter Ended			Half Yer	Half Year Ended Year Ended		Quarter Ended			ear Ended	Year Ended	
VO.	800000000	30.09.2022	30.06.2022	30.09.2021	11 30.09.2022 30.09.2021	31.03.2022	30.09.2022	30.06.2022	30.09.2021		30.09.2021	31.03.2022	
_		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited		Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from operations	1,357.40	1,122.52	1,022.38	2,479.92	2,370.22	3,665.76	6,357.36	6,471.34	5,597.01	12,828.70	9,759.13	27,745.95
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional item)	(1,118.11)	(2,065.09)	(1,045.21)	(3,183.20)	(2,268.78)	(5,233.49)	(1,409.78)	(2,131.66)	(1,621.08)	(3,541.44)	(3,800.02)	(20,737.53)
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional item)	(1,118.11)	(2,065.09)	(1,045.21)	(3,183.20)	(2,268.78)	(5,233.49)	(1,409.78)	(2,131.66)	(1,621.08)	(3,541.44)	(3,800.02)	(20,737.53)
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional item)	(1,120.55)	(2,214.91)	(1,079.47)	(3,335.46)	(2,457.04)	(5,494.81)	(1,445.21)	(2,303.88)	(1,613.70)	(3,749.08)	(3,978.56)	(19,308.85)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(1,119.47)	(2,213.83)	(1,081.03)	(3,333.30)	(2,460.15)	(5,490.47)	(2,013.62)	(2,468.47)	(1,615.15)	(4,482.09)	(3,979.20)	(21,423.97)
6	Plad up Equity Share Capital (Face value Rs. 10/-)	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	(314.70)		6,048.90	(314.70)	6,048.90	3,018.58	(16,526.42)		5,400.46	(16,526.42)	5,400.46	(12,044.34)
	Net Worth	1,905.30	4	8,268.90	1,905.30	8,268.90	5,238.58	(14,306.42)		7,620.46	(14,306.42)	7,620.46	(9,824.34)
9	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	54,560.84	-	52,493.89	54,560.84	52,493.89	54,582.92	112,610.85		105,298.79	112,610.85	105,298.79	115,374.94
10	Debt Equity Ratio	28.64	18.05	6.35	28.64	6.35	10.42	(7.87)	(9.16)	13.82	(7.87)	13.82	(11.74
11	Earning per Share (of Rs 10/- each)										7		
1	(i) Basic (Rs.)	(5.04)	(9.98)	(4.86)	(15.02)	(11.07)	(24.75)	(9.08)	(11.12)	(7.28)	(20.20)	(17.91)	(96.28
7	(ii) Diluted (Rs.)	(5.04)	(9.98)	(4.86)	(15.02)	(11.07)	(24.75)	(9.08)	(11.12)	(7.28)	(20.20)	(17.91)	(96.28
12	Debenture Redemption Reserve	2,215.29	2,114.59	1,611.12	2,215.29	1,611.12	2,013.90	2,215.29	2,114.59	1,611.12	2,215.29	1,611.12	2,013.90
13		0.28	(0.23)	0.37	0.03	0.27	0.17	0.27	0.09	0.45	0.21	0.23	0.14
14		0.33	(0.27)	0.37	0.03	0.27	0.17	0.55	0.10	0.45	0.33	0.23	0.12

For and on behalf of the Board of Directors Shristi Infrastructure Development Corporation Limited Sunil Jha Managing Director

Half year ended Half year ended Year ended 30/09/2022 30/09/2021 31/03/2022 (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 8,881.59 27,000.23 53,569.49

6,891.53

6,891.53

5,077.23

5,081.96

220.1

64.477.0

ness:
The limited review of the financial results for half year ended September 30, 2022 has been carried ou
by the statutory auditor. This flesuit have been reviewed by the Audit Committee and approved by the
Board of Directors is timeetings held no November 11, 2022.
The above is an extract of the detailed format of financial results fled with BSE Limited under Regulation
25 of the SERI (Listing and Other Discosure Requirements) Regulations; 2015. The full format
financial results are available at Company's website vowourina.co.in and on the websites o

financial results are available at currywny or more a best Limited at www.besindia.com.
Figures for the previous period / year have been regrouped wherever necessary to confirm to cur neriod presentation.

KINTECH RENEWABLES LIMITED

Regd. Off.: Kintech House, 8, Shivalik Plaza, Opp. AMA. IIM Road, Ahmedabad - 380 015, Guiarat.

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE SECOND QUARTER AND HALF YEAR ENDED ON 30TH SEPTEMBER, 2022

24.71

17.17

17.17

10.86

100.00

56.55

44.40

33.00

33:00

8.48

4.27

4.27

3.17

100.00

Particulars

Fotal Income from Operations Vet Profit / (Loss) for the period (before Tax, :xceptional items)

Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)

Net Profit / (Loss) for the period after tax (after

Exceptional items)
Total Comprehensive Income for the period
((Comprising Profit / (Loss) for the period (offer Tax
and Other Comprehensive Income (after Iax)
Expuly Share Zapital (of 8.10'- each)
Earnings Per Share of Re 10'- each (For Continuing
Operations: Not Annualised) (in Rs.)

The above results have been reviewed by the Audit Com at their meeting held on 12th November, 2022.

0.2

18,156.35 34,724.58

13.944.68 27,024.56

207,081.77 220,161.62

129.755,28 93,094.86

By Order of the Board For INFINA Finance Pvt. Ltd.

0.6

18,156.35 34,724.58

13,946.68 27,028.73

INFINA FINANCE PRIVATE LIMITED

Extract of unaudited financial results for the half year ended Sept

otal income from operations

Total income from operations
Net Profit for the period
(before tax, exceptional and extraordinary items)
THE Profit for the period Before tax
(after exceptional and extraordinary items)
THE Profit for the period after tax
(ofter exceptional and extraordinary items)
Total comprehensive income for the period
(comprehen politic for the year (feet tax))
and other comprehensive income for the period
(comprehen politic for the year (feet tax))

and other comprehensive income (after I Paid up equity share capital (face value of Rs, 10 per share) Reserves (excluding revaluation reserve) Securities premium account

Paid up debt capital / outstanding debt

Debenture Redemption Reserve

BKRL

Outstanding redeemable preference shares
Debt equity ratio
Earnings per share (of Rs.10 each)
- Basic and Diluted



ACE INTEGRATED SOLUTIONS LIMITED

CIN: L74140DL1997PLC088373

Regd. Office: B-13, DSIDC Complex, Functional Industrial Estate, Industrial Area Patparganj, New Delhi-110992, ceo@aceintegrated.com, cs@aceintegrated.com Phone No. 011-45

	Particulars	6 months ended	6 months ended	6 months ended	12 Months accounting year ended	12 Months Previous accounting year ended
		(30/09/2022)		(30/09/2021) (Unaudited)	(31/03/2022) (Audited)	(31/03/2021 (Audited)
1	Total Income from Operations	358.10	640.36	260.45	900.80	680.36
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax. Exceptional and / or Extraordinary items)	22.62	192.16	(45.94)	146.23	14.59
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	22.62	192.16	(45.94)	146.23	14.59
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	18.15	145.87	(47.05)	98.83	13.88
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	18.15	145.87	(47.05)	98.83	13.88
6	Paid up Equity Share Capital	1020.00	1020.00	680.00	1020.00	680.00
7	Earning Per Share (Face Value of Rs. 101-) Basic: Diluted	0.18	1.43	(0.69)	0.97	0.20

- For ACE INTEGRATED SOLUTIONS LIMITED

Sd/-Chandra Shekh (Managino D Sdi-Rohit Goel Chief Financial Officer

Ekansh Concepts Limited

Extract of Un-audited Consolidated Financial Results for the Quarter and half year ended September 30, 2022

(Rs. in Lakhs excep (Rs. in							
		Quart	Half Year Ended				
Sr.	Particulars	Unaudited	Unaudited	Un-Audited			
No.	,	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2022			
1	Total Income	1,085.55	2,141.17	2,413.30			
2	Net profit for the period before tax (before exceptional items)	106.73	194.73	171.57			
3	Net profit for the period before tax (after exceptional items)	106.73	194.73	171.57			
4	Net profit for the period after tax (after exceptional items)	110.38	141.87	138.93			
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit for the period after tax and other Comprehensive income after tax)	263.18	11.26	100.84			
6	Paid up Equity Share Capital (face value of Rs. 10 each)	1,512.76	1,512.76	1,512.76			
7	Earning per share (quarter numbers are not annualised)						
	(a) Basic (Rs.)	0.73	0.94	0.92			

filled financial results for the quarter and half year ender reviewed by the Audit Committee of the Board and recommende the Board of Directors of the Company at its meeting held een subjected to limited review by the statutory auditors of the

		Quart	Half Year Ended		
Sr.	Particulars	Unaudited	Unaudited	Unaudited	
No.		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2022	
1	Total Income	1,085.55	2,141.17	2,413.30	
2	Profit Before Tax	108.14	190.85	175.64	
3	Profit after Tax	111.86	64.91	142.82	
4	Other Comprehensive Income	152.80	(130.61)	(38.09)	

mrenensive incuries as a nextract of the obtained financial results for the Consolidated financial results for the dod on Septimber 30, 2022 filed with the Stock Exchange under regulational Colher Disclosure Requirements Regulation 2015. The full format of the sults and the Consolidated Financial Results for the quarter & half year.

Place: Mumbai Date: November 11, 2022 financi<mark>alem.ep</mark>m.in

Sdr-Deepak Nayak Ranjan Director DIN- 08406471

Place: Delhi Date : November 12, 2022

at their meeting held on 12th November, 2022.

2) The Figures for the provious year I priorid have been regrouped / reclassified wherever necessary to correspond with the current period's classification / disclosure.

3) The above is an extract of the desired format of Charetriv Half Yearly. Un-audited Financial Results Filled with the Stock Exchange under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. Prior Half Williams of Charletry Half Yearly Un-audited financial results is available on the website of Stock Exchange, www.bseinda.com and on the website of the Company at www.interchreenealites.com.

acressed Un-audited Financial Results for the quarter and half year ended as on 30 September, in terms of Regulation 33 of SEII (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 and have expressed their unmodified opinion.

shboo Singhal Khushboo Sing. Managing Director (DIN 09420048)

For and on behalf of the Board of Directors of KINTECH RENEWABLES LIMITED

.



फॉर्म नं, आईएनसी-26

फोर्म ने, आईएनसी--28 (क्योनी शिक्का) मिक्स 30% के मिक्स

"IMPORTANT" Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a

result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make

necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner

आता स्टील्स विमिटेड सीआईएन: 1741100P1970PLC003353 प्रवीकृत कार्यात्म: सी-139, औद्योगिक एरिया, वुस्तव्यहर रोड, गावियावाद-20100 (यूपी) मेंसिं: Amsteelstiddferdifmal.com वेबसाइट: http://www.atmasteelstid.com हम्मा अंकर , कार्या अंकर , कार्या

रहेंगी। आत्मा स्टील्स लिमिटेड के लिए हस्ता./-स्थान : गाजियाबाद हरभजन सिंह दिनांक: 12 नवंबर, 2022 प्रवंध संचातक

٦.۵

whatsoever.

ऐस इन्टीग्रेटेड सॉल्युजन्स लिमिटेड CIN: L714(DDI) 9979/LCISS373 एकी. आवांक: को-1, क्रीरावांकीची बॉल्येल, अस्तान इंडीट्यून इंटेट, इंडीट क्रिक्टो-1052 Email-coofficerintegrated.com, officerintegrated.com Phone No. (11-40737499)

30 सितम्बर, 2022 को समाप्त छमाही के	लिए अनेक	क्षित स्टैण्डए०	र्गीन वित्तीय प	रिणामी का	
					रु लाखों में
थियरण	समाप्त 6 महीने	समाप्त 6 महीने	समाप्त 6 महीने	समाप्त 12 महीने लेखा वर्ष	समाप्त पूर्व 12 महीने लेखा वर्ष
	(30.9.2022)	(31.3.2022) (अनेकेक्षित)	(30.9.2021) (अनेकेश्वित)	(31.3.2022) (अंकेशित)	(31.3.2021) (अकिक्षित)
 परिचालनों से कुल आय 	358.10	640.36	260.45	900.80	680.36
 अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एर्ट/अथवा असाधारण मदों से पूर्व) 	22.62	192.16	(45.94)	146.23	14.59
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाग/ (ज्ञान) (विशिष्ट एवं/अभवा असाधारण मर्वी के बाद)	22.62	192.16	(45.94)	146.23	14.59
 कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (ज्ञानि) (विक्षिप्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद) 	18.15	145.87	(47.05)	98.83	13.88
अविधि हेतु फुल व्यापक आय (अविध हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	18.15	145.87	(47.05)	98.83	13.88
 प्रदत्त इक्किटी शेयर पूंजी 	1020.00	1020.00	680.00	1020.00	680.00
 (आव प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) मूलः गरतः 	0.18 0.18	1.43 1.43	(0.69)	0.97 0.97	0.20 0.20
Promiti -					

- है। इस विशेष पंतिमान कम्पनी भी वेसवाईट www.accinicipated.com पर उपस्कार है। इस के इसी में मानू कर, आधार्तीय कर तथा पूर्व गई कि तमें के सामयोगनत शर्मामत है। इस के इसी में मानू कर, आधार्तीय कर तथा पूर्व गई कि तमें के सामयोगनत शर्मामत है। इस के तथा कर भी मानू कर्मामत है। इस विशेष पंतिमान हैं कि (3) नदी के तुश्चात्मक विशादी पंतिमान प्रविश्व नदी हैं अधीर का प्रयोग कम्पनी का हात हो में स्टें इसमें में दे कारण हुए के स्टूबर्ग में कि (3) नदी के तुश्चात्मक विशादी पंतिमान प्रविश्व नदी हैं अधीर का कि कमाने के स्टूबर्ग में स्टूबर

कृते, ऐस इन्टीग्रेटेड सॉल्यूशन्स लिमिटेड इस्ता./- इस्ता.-ग्रीहत बोयल चन्द्र शेखर यमां मुख्य वित्त अधिकारी (प्रबंध निदेशकः)

अग्रसेन स्पिनर्स लिमिटेड सीआई एन :L17297HR1998PLC034043 पंजीकृत कार्यात्मधः दूसरी मंजिल, एससीओ 404, सेक्टर—20, पंचकुला—134116 दूरमाष्ट्र नं: :0172-4644777 ईमेल : aggarsainspinners@gmail.com वेबसाइट : www.aggarsainspinners.com

अलोन अन—ऑडिटेड वित्तीय परिणामों का उद्धरण तंबर, 2022 को समाप्त तिमाडी और छमाडी के लिए

	(रु. ताख							
Г			स्टेंडअ	लोन				
क्रम सं.	विवरण	3 महीने समाप्त 30.09.2022 (अलेखापरीक्षित)	छमाही समाप्त 30.09.2022 (अलेखापरीक्षित)	वर्ष समाप्त 31.03.2022 (लेखापरीक्षित)	3 महीने समाप्त 30.09.2021 (अलेखापरीक्षित)			
	प्रचालन से कुल आय	284.71	305,32	378,76	56,83			
	शुद्ध लाभ / (हानि) अवधि के लिए (कर से पहले, असाधारण और / या असाधारण आइटम) कर से पूर्व की अवधि के लिए शुद्ध लाम / (हानि)	3,88	8,85	12,82	2,18			
1-	(असाधारण और / या असाधारण मदों के बाद)	3.88	8.85	12.82	2.18			
	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और / या असाधारण मदों के बाद)	1,80	5.52	10.21	1.61			
	अयधि के लिए कुल व्यापक आय[जिसमें लाम / (डानि) शामिल है , उस अवधि के लिए (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय]							
	इक्विटी शेयर पूँजी	350.34	350.34	350.34	350.34			
	रिजर्व (पुनर्मूल्यांकन महार को छोड़कर जैसा कि पिछले वर्ष की बैलेंस शीट में दिखाया गया है) प्रति शेयर आय (असाधारण वस्तुओं से पहले) (बार्षिक नहीं): प्रित्येक 10 रुपये की)	-		-	-			

ct. ज्योक्त केवी हिसिटम देंड अन्य प्रकारीकरण आवश्यकताएँ। विगियम, 2015 के विगियमण 23 के तहत रहींक दश्यकेंत्रों के राम दासर अनेकारणिक्षा त्रिमाही विशेष प्रीपण के विश्वत प्रश्चक का एक निकार्ण है। विशोध परिणामी का पूरा प्रसार स्टी एक्सपरिकारी के निवाहर का www.mash.ai) को स्वीकार्ण के लिक्साटू (www.gapassimpsinos.com एक्सपर एक्सपर हैं। एउम्रीक समित्राणी की तरेवा गरीवा सोमीते द्वारा संगीवा की गई है और 12.11.2022 को हुई अपनी बैठक में निवास स्वाव मुन्तीपित्त की गई हैं।

0.05 0.05

0.16 0.16

0.29

0.02



पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

Œ.	यों का प्रयोग करते हुए अधोडरतकांशी ने यहां नीचे व्यक्ति सम्मति का करवा कर दित्या है। ऋगध आम जनता की एतद्दारा सतके दित्रा जाता है कि ये गत्ती नीचे गर्मित सम्मति का रणवसाय न व्य कर्मताय से) ज्वामनाहै थीं) के नाम	तथा इन सम्पर्धानी का किसी भी तरह का व्यवसाग उस पर व्याव के साथ नीचे नांगेत राशि के लिए पीसीएव प्रतिभूत असित का विवस्ता (अबल सम्पर्धि)	एक्टल (पूर्व का देवन वारसिंग फाइनेंस व्यंपीरेशन शिमिटेड) के चार्ग के अधी मांग सूचना की शिध तथा गाँग	न होगा।
tt.	क्रमण्यार, ११,४४०मणाव, ४०१, ४० नाम (जन कोड ग्रंबन २००४-१०१८), (लखनक- सत्तवान- उत्तर प्रदेश) कमत कुनार नीम्क (फर्नदार वर्ग गम),परस्वर्ट देवी (स्ट-वर्जदर)	क्टॉट संबर जी-34 के किसों पर मजान, सामरा संबर-41900 किन स्त्रीन नगर, स्ट्रीमी, सार्थ- फैट्टफ्टारेंड अस्त्रनक	25-दा-3019 के 35,19,337/- (क्रमचे तीय लाख दन्तीय हतार रोन ही गैंटीय मार्ट) के तिए	9.1
2.	का गर्ना/परस्वर्ट देवी (स्ट-अर्जयर) (अल ओड संस्था COCC1212), (गेरसपुर – जार प्रदेश) अंबुद शिवसी (अर्जयर का गर्ना/पूर्ण, रुपेंग्र शिवसी (सट-अर्जयर)	सखनक तक प्रदेश 226210 गाठा नंबर 199, प्राम-विजया नांव (बी.एम.पी.), पराना एवं तहसील— अकबरपुर, अवेडकर प्या, फैजाबार— 220123 के प्राप्त के प्रियत प्यार्ट	(बपये तीस लाख बन्तीस हजार होन ही विहोस मारू) के लिए 23-04-2019 का 10,95,060/- (करमे दरा लाख पचनमें हजार गांद गांव) के निय	8.1
3.	सरेन तियारी (सह-कर्णवार) (ज्ला कोड गॉक्स (2025/09), (सक्षानक – कार प्रदेश) क्षीवर शहनद (कर्मग्रर का नाग)/ विकास (सह-कर्णवार)	224/25 के भाग में प्रमत प्लाट प्लॉट ऑन खरण नेपर 179 प्रम दशीली वार्ड परगम नहींना रेह मेथियी लखनक लखनक उत्तर प्रदेश 126010	(काम दश साख प्रधानम हतार साथ मात्र) के स्मय् 26-07-2019 क 12,15,035/- (स्मने मान्य मान्य मेळ हतार कह सी पैटिंस मात्र) के लिए	2.1
4.	(अत कोड संख्या 00033756), (कान्युर – उत्तर प्रदेश) मनीव बावरेवी (कार्यदा का नाम)/ इनोजे बात्तरेवी (वात-कार्यदार)	परिवार संक्रम के-125 प/e(काई) वर्णांश्र- के, अराजी गंबर 571 कर हिस्सा गीज बुद्धपुर महारिया, करनपुर नार कालपुर शरी उत्तर प्रदेश 258001	(रूपन वादक लाखा प्रक्रक कया र शक सा पट सामा) का लाख् 26-09-2019 र. 32,49,217/- (रुपने बतीया साख्य उनमाया हतार यो ए. यमक मामा) के लिए	8.1
5.	(अन कोड संक्ष्म COCC5960), (लखनक – उत्तर प्रदेश) रक्षि प्रतार (कर्जवार का नम)/गीता उज्जनति (सह-कर्जवार)	वर्गंड नंबर 23 के हिस्से पर नकान, खबरा नंबर 42 के हिस्से पर सेमर गीरी वार्ड- फैकुस्लारंज, लखनज, शब्दानज- 224020	29-10-2219 स. 25,45,486/- (करने गण्योस सन्द्र क्रियारीत हमत यह सी अनुसास मात्र) के मिद्	9.1
6.	(जल कोड संक्रम COM1261), (लखनळ- सत्तवाग- उत्तर प्रदेश) विवेज वर्से (कर्तवर का नम)/मूनम थेन्य (वह-कार्यदार)	प्लॉट लंबर 35 खम्मा नंबर 2 निवासूबीनपुर वार्ड इंदिंग फिनवरिंगी लखनक प्रखनक उत्तर प्रदेश- 224001	19-11-2019 क.19,58,216/- के लिए (क्यने उन्मीस साख अद्यापन कवार दो गी जोलब मात्र) के निए	9.1
7.	(ज्ञान कोड संख्या 00:00564), (कोर्ज- उत्तर प्रदेश) दससिंह (कर्मदर का माम)/गेरिंद राम (स्व-कर्मधर)	माख नंबर 95 का हिस्सा आम रेड नगर बाहर मुंगी नीलीभीठ जीतीभीठ कर अरेड- 20201	19-12-2019 स. 11,73,964/- (स्पर्वे न्यास लाख निकार काम. मैं. मैं. मीसद मात्र.) के लिए	9.1
8.	(ऋग कोड प्रेंडग cocc1251), (इलाह शर्व — उत्तर प्रदेश) अधिक शामीक (कामीवर का गाम)/ जनहोन खान (स्व—कामीवर)	मञ्जान मंत्रत र्ज-1472 जीटीयी नगर मोजना परगम और तहस्तील स्वद इस्तजाबाद, मस्तान मार्बेद के मास बरेसी इस्तज्जमान वनर प्रदेश- 2110's	19-12-2019 र. 31,88,696/- (रुपये इफ्तीय लाख अट्डजी हजार वह यी विचानये नात) के लिए	8,1
9.	(अग ओड संख्य coccozot), (बरेली – इसर उदेश) दिलेंद्र कुमर (कर्नघर क नाम)/तरिता हेर्म (सह-कर्नघर)	थन विनाग वीसलपुर के नास, पीलीनीत नीशीनीत कहर प्रदेश:= 282001 गांडा नीवर 97 ग्राम चीसर पाढ़िया का भाग	27-07-1020 स. 5,84,272/- (रूपमे गांच लाख चीयरी हरूर थे सी सत्तर गत्र) के लिए।	9.1
10.	(अस कोड संक्ष्म (0201903), (लक्ष्मक – वता प्रदेश) जाग वात है और। स्थता राजपूत के क्षमत करूमी व्यक्ति (कर्मधार के माम के बात और क्षमत कामूमी व्यक्ति)	ফৰ্লি পূৰ্বৰ কৃষ্ণ ক্ৰমেৰ প্ৰথম 177 আৰু 102 জমিকা গদেশা ছিত্ৰপীৰ লক্ষ্যক লক্ষ্যক বৰুৰ দুইবা:= 226CC1	'9-0+-1020 के 4,10,709/- (रूपरे का लाख दस कवार सत सौ मैं मात्र) के लिए	8,1
1.	(जन कोड संस्थ COCC110), (काग्युर – वहर प्रदेश) तम करण सिंह (कर्णवर का गम)।किसम सिंह (सन्द-कर्णदर)	प्राइमेट प्लॉट 52 का अधानी नांचर 870 मिन, गांच यहेंसी कुल नपुर, कानपुर, राजीण- 228013	26-11-2018 स. 15,94,025/- (समने तेयह साम्ब्र चीरानचे हजार नांच नाज) के सिद्	8.1
2.	(अस्य कोड संक्ष्म COCCS486), (लक्षमक – उत्तर प्रदेश) महुक्त मिंह (कर्तप्रर कः गम)/ ताल यहादुर सिंह (स्ट-कर्नपर)	प्टान गंडल 35र 34 उसर संख्या 2233/28, 2233/28, 2233/43/1 एवं 2233/43/4 प्राप्त करीती लखनक करर प्रदेश:= 226000 में मिनित मधान	29-04-1021 ए. 65,38,845/- (करने विमायत सारा अङ्गीत प्रचार आहा ती पीतलीय पात्र) के लिए	8.1
3.	(ञ्चन कोड संख्या cocc2549), (ञ्चनक — उत्तर प्रदेश) तुर्जीय अहमय (कार्नपर का नाम)/आशमा बेगम (क्द-कार्नदर)	प्लंड नंबर 1)32, प्राप्त- बेक्सचाद नरममा और तहसील सदर प्रताननह प्रश्नपनह उत्तर प्रवेश: 220001	12-05-2021 क. 10,90,151/- (इपये दर साख नम्बे हमार एक सी हम्मायन मात्र) के सिए	9.1
4.	(ऋत कोड संख्या (2000)(३१८), (धारानली – कार प्रदेश) आदित्य कुन्य (कर्नदार का नाम)/ रीना विचारित्यह-कार्यदार)	क्रांट नंबर 87/: गीळ क्रखगीपुर पराना गर्बा गुगसळात चंडीसी उत्तर प्रदेश:—292104	27-05-2021 र. 2,81,506/- (तपये दो लाख इक्ससी हजर गोर सी वह नाम) के लिए	9,1
5.	(जल कोठ संख्या coccess), (सखनक – उत्तर प्रदेश) भ्राभिक निश्ना (कर्नदर का नाम)/ प्रतित श्रीक्षा (पर-कर्नदर)	वर्तेद मेंबर 302 अपना घर अन्तर्रेमेंट खसच मेंबर 1842 1845 मीजनतालगंत राम बोली चेड तखनक उत्तर प्रमेश- 226020	27-05-1021 र. 5,27,414/- (श्यमे प्रांच माख वसईव हत्यर चार वी चीवह गात्र) के लिए	10.1
	(जन कोड संख्या coccu1so), (बारानलें – करा प्रदेश) श्री कांत्र गाठें (कर्मधर के नाम के सात और अजार कानृती सरियः) पुष्प पाँडे (स्थ-कर्नचर) के जात और अजात कानृती गरिय	समेर नंबर 225 सी, चीची मंजिल, प्रत्यक्ष ग्रीयर, मीजा- कंचरपुर पररास देशत क्षमानत करायको उत्तर प्रदेश: - 221001	27-06-2021 रः, 9,79,392/- (कपरे में साख उन्पाती हजार तीन श्री चानचे मात्र) के लिए	10.
7.	(जन क्रोड संक्य coccsozi), (बारागरी – वतर प्रवेश) बारी आलम खान (क्रार्तवार का नाम)/ अंजुन क्षारा (सह-कर्नपर)	अराजी जंबर 208 बींका पुनलचक परस्ता यूस चंदीली कंदीली कंद प्रदेश:- 232'01	17-05-2021 ए. 12,54,306/- (एसरे बारह साह चीवन हातर तीन सी बढ़ सात्र) के लिए	8,1
3.	(ऋग कोड रॉक्स CO221501), (बारागको – उत्तर प्रदेश) दुगैरा सिंह (कार्यदार का नाम)/ प्रीति सिंह (स्व-कार्यदर)	अराजी शंबर 356 और 357 मीला चनी परामा वेझात अमलत जातास्त्री जारणसी जार उदेश≻ 221005	27-08-2021 में. ६,01,318/- (स्पर्वे कह राज एक हजार तीन सी अग्ररह मात्र) के तिए	10.
ď	(ऋत कोड संक्रम (0000972), (कानपुर- उत्तर प्रदेश) इस्तार अहमद के बात और अज्ञत जानूनी चारिस (कानपुर के नाम के बात और अज्ञत जानूनी चारिक)/ रेडान मध्योन, इरनान अहमद (स्व-कार्नदर)	फर्टर मेंबर III, असले मंबर 756, स्वाई सिन्ने, शोज मिल, ओम दुरवा, चेवरपुर, मध्यपुरवा, व्यानपुर प्रामीन उत्तर प्रदेशा- 200:07	27-06-2021 स. ४,70,199/- (रुपये चर साख्य सत्तर बनार एक से सिन्यनये मार) के सिद्	9.1
2.	(ज्या कोड पंडम coccss14), (बारागरी – उत्तर प्रवेश) कृतेंद्र प्रताम सिंत (कर्नदार का नात)/ मिनतेत (सह-वर्णदार)	अराज्ञी लंबर 240, मीला आलीकानपुर पराणा हवेली जीनपुर शीनपुर उत्तर प्रदेशः — 222002	27-06-2021 स. 4,65,010/- (कमरे कार लख्य पैसन हजार दस सक्र) के लिए	8.1
L	(ऋग कोड पंक्ष्य coccracr), (लक्षनक – उत्तर प्रदेश) महेर कुमार (कर्तशर का गाम)/ शर्ति गास्य (सन-प्रतीसर)	कावरा नंतर ४१६ विंद या प्यॉट, वाम-नर्कोर्स्त, परमा तहसीस नकावतंत्र जाराबंकी बाराबंकी वतर प्रदेश:- 215001	27-06-2021 क. १,69,603/- (इसमें प्रः काखा उन्हरत हजार वह सी ग्रीन नज) के लिए	10.
	(ऋण कोड संक्ष्म C020e011), (लक्षमळ – उत्तर प्रदेश) श्रुष मश्क्रोण २२(कर्मचा का रागः)/ मश् मश्कोण, सायम मश्कोण (चक्र-कर्णचार)	मकान नंदर एस⊣x0, प्लॉड नंदर 23, खरुरा नंदर 34, ग्राण–यस्तीती, प्रक्ति नगर, नैजाबाद रोड, शक्ति नगर, फैलाबाद ग्रेड लखरक उत्तर प्रदेश नर निर्मिश– 22020	14-00-2021 स. ३६,११,३९६८- (इसमें क्रांस साख्य त्यारह हजार जॉम की मिमानमें नाज) के लिए	9.
	(ञत जोड संख्या coccotrs), (पुराकाय – बार प्रदेश) विभेग कुनर हार्ग (जर्मवार जा गाम)/ शिको शर्मा, रोज वर्ग (शब-कर्मवार)	गैतिन्द मोह-चलरेकपुरी निकट निकसित ईटर करीलेट मुख्यालाद मुख्याचाद मुख्य कर प्रदेश:- 244001	16—26—1021 फ. 6,17,715/− (करने कब शास्त्र समझ करार साह औं पेडह मान) के लिए	8,
	तका शम्।, त्या तम् (जा-कावार) (ज्ञा कोच प्रेक्षा (२०००)क्ष्र), (चारागरी - उत्तर प्रदेश) झाना लास (कावेदर का गम)/कर्जुकरा देवें (जा-कावेदर)	अराजी जंबर 546 बीका धनुष्ठ परगर आस्य । तहसील करणना इलाहाबाद इलाहाबाद उत्तर इरेकः – 211001	(करन कर ताफ सकत करार सात सा पहुंच मात्र) के तरए 26-06-2021 स. 4,34,510/- (क्सने चर ताख गाँगीस हजार पांच सी मीस मात्र) के तिए	9.
	(जन कीड संख्या (00004617), (वारतन्तं – कार प्रयेश) सुनाता येवी (कर्नदर का नाम)/असिस कुन्यर विवास (जन-कर्नदार)	अराजी लंबर 119/2, मीला लखमीपुर, परगण मण्डे चंडीली चंडीली चंडीली चंडर प्रदेश:- 252101	28-06-3021 स. 16,68,108/- (स्थर्न जोसह राज अञ्चाद हतार एक व्यं शाद मात्र) के लिए	9.
	्र (अस कोड संख्या cocczesz), (इस्तार्य = जतर्यमत) मुत्रील कुमार (कार्रवार का नाम)/ रेखा देवे (सर-कार्यवर)	क्षयरा नंतर 326 विन का गा", वान कचनालगानी कासीपुर ठवमधितनगर उत्तरांचला—264715	20-07-2021 र. 19,76,279/- (कामी जन्मीर लाख विवत्तर कटार से भी जन्मामी गता) के लिए	8.
	(जन जोड संख्या (00-1306), (लखनब-शालबान-उत्तर प्रदेश) दिनेह कुम्पर सिंह (जर्नदार के जन के जब और अजल करतृती याहिया)/नेज् विंह (यह-कर्नदार) के जब और अजल करतृती याहिया	पतित में 715, 7वें मेरिक घेसीरो तीवर आर्डुक्सॉन, कुलानपुर रोड तखनक जखनक उत्तर प्रदेश:- 226022	24-09-2021 स. 23,11,551/- (कपमें बहुस लाख लगरह हजर गाँच मी इल्लाबन मात्र) के लिए	9.
	(अस कोड संख्या COCC2454), (शलामी – उत्तर्यमत) ग्राजीत कुमार काळात (कर्जवर का माम)गीरा काळाल (सह-कर्मवर)	शस्त्रा गंपर 320 मिन का क्रिस्ता गांव बांडा मञ्जू रामनगर नैतीतल बनसंगळ 244715	24-09-2021 र. 13,75,777/- (कामे तेरह लाख पमहत्तर हजार कात भी यतहतर मात्र) के लिए	8.
	(प्रत कोड संख्य coccasss), (बारगरुं – उत्तर प्रदेश) क्षत्रय कुमार सरोज (कर्णवर का नाम)/ प्रतिना देवी (यह-कर्णवार)	गांत नेंदर ११३४४२ मिन प्राप्त वेसकावाद परगण सदर, प्रतापण प्रतापण वतार प्रदेश: 230001	24-09-2021 ग. 5,71,998/- (कपमे पांच लाख इनहतर हजार मी यी अट्यानके मात्र) के लिए	9
	(ज्ञल कोड संस्त्र CO:03992), (नोरसपुर- उत्तर प्रदेश) औ सम विंह (कर्नसर का नाम)/ समयति सिंह, विजेंद्र कुनार सिंह (सह-अर्जसर)/ विकार कुनार सिंह (परंदर)	क्षराजी गंबर 23 मिन, मीज-म्यक्रिया क्षत्यर नगर, टरण-गोबरी, परगण- सलेगपुर मझीती, तहसील और जिला देवरिक देवरिक उत्तर प्रदेश-274731 में स्थित मक्षत्रन	08-10-2021 के 1,34,18,642/- (करने एक करेंड्र जीतीस काख अदारह करार वक सी बमार्टास मात्र) के लिए	8
	(अन कोड पंक्ष्य colcelso), (लक्षनक- उत्तर प्रदेश) चेड्रप्पट राहेका (क्षलंदार का नाग)/ जारिय खारून (सा-कर्तवर)	प्लॉट नेंबर 24, खबरा नंबर 221, राज- बरदावी खेढा, बार्ड-शरीद बंगत लिंह, लखनक लखनक लखनक उत्तर प्रदेश: 226000	21—10—3021 स. 12,87,899V— (रुपने वारह लाख जलामी बजार आठ जी निज्यानके मात्र) के लिए	9
	्रात्य कार्य (१९००-४०१५) (अन कोड ग्रंडल १०००४७३०), (चोली- उतर प्रदेश) ग्रंडच कुमार (कर्मदर के नाम के जल और अजत कर्मने व्यक्ति),क्ष्में मंगवार (२४-कर्नदर) के बात और अजत कार्मी व्यक्ति	असरा नंबर 371-372 कर विस्सा, प्राविट प्लॉट नंबर 13 का किस्सा, वाके विकार मान नगता, मानफ जीवन बीमा मारु बरेसी, बोसी उत्तर प्रदेश:—245001	22-11-0021 के 20,27,231/- (क्सी मीस शाख द्वक्सीय हजार थे जी दक्तीय मात्र) के लिए	10
				L
	(जन कोन संक्षा coccusts), (कान्युर-वनर इचेत) जर करण सिंह (कार्नप्रर का माम)/केरन विहे (पह-कार्नदर)	व्यांट केंबर 32 पर पकार आराजी केंबर 870 फोली मुजानपुर कानपुर कानपुर हामीन वतर प्रदेश:— 206015	22-11-2021 र. 10,39,496/- (रुपये द्वार राज्य उनलातीय हालर चार थी किंग्यों मात्र) के लिए	8.
	(अग ओड संख्या 00002290), (अगनुर्- रक्त प्रदेश) जब अना सिंव (कर्जदार का नन)/किरन विष्ट (क्षक्-कर्जदार) (अस ओड संख्या 0002484), (लक्षनक- जालवान-दवर प्रदेश) मेडम्मद खालिद (कर्जदार का	प्राप्तेय स्वींड रॉबर 32 अराजी रॉबर 820 मिन, रॉय ग्रोहेसी सुजनपुर कानपुर कानपुर डार्मण तत्तार प्रदेश में। — 228015 पत्तीर नंबर 324 तीमरी मंत्रिल आवध अगार्टमेंट मंत्रीत संख्या 1807 पर दाशिया आवम बेग बकर खाना गोलागंग	22-11-2021 स. 7,80,772/- (रंगवे साट खाखा अस्ती हमार सात सी बहत्तर मात्र) के लिए	8.
	मा। ताला खातिर (ज्ञ-मार्गर) (मार बंद संदेश १००५) (जळनक- ललबान- वहर प्रदेश) सुप्ता विश्व (ध्यांदर के नाम के ज्ञात एवं अजर काहते वरिक) तृत्या कुनार (सक्-कार्यदर) के ज्ञात एवं अज्ञत काहते सरिक	লয়নক নজনক তলং ঘইন 226000 ফ'হে ন্যাৰ ২ন–18, জৰুদ ন্যাৰ "226 সা ছিলো নাহ–বুনীৰ, চাৰনীত আঁৰ জিলা লজনক লজনক	18-12-2021 रू. 28,01,534/- (रुपये क्रव्यीत राख एक हमर पाँच मी मीतीत मात्र) के लिए '8-0'-2022 रू. 3,35,75:/-	9
		वस्य प्रवेशा:- 22c001	(रुपये तीन लाख पैतीय हजार यात भी पनाम मात्र) के लिए	
	(अंत ओह संख्य coccion)), (वातगरी- उत्तर इदेश) अधिश चंद्र (कर्गदार का नन)/ कास सर्ग (सह-अर्थका) (अंत ओह संख्य coccosio), (मुख्याच- उत्तर प्रदेश) अचल की सकतेन (कर्मदा का नम)/	वलैट बंबर 105, करटे करोर, कारण में कुसून अपार्टमेंट, आपनी गंबर 459/2 (पुराम), मीज खांहका, परगण मेहात अमानत जागको जात प्रदेश:- 221001 मकान में -40/47 स्वसरा गंबर 105, 519-हबरतजुर, तहसीहर- चपर निकट तीप खाना गेर, रामपुर रामपुर रामपुर राम	22-02-1022 सं 28,35,958/- (करमें अञ्चर्धस लाख परमन हतार गी सी अद्देशन मात्र) के लिए	10
	प्रवत्त सक्तरेन (सक्र -क र्तवार)	र्वकान - म्हण्या प्रकार क्या (१६) अन्यक्ष्यातुम्, त्रवणात्म स्था प्रकार क्या स्था प्राप्त क्या स्था प्रवेश स्था प्रकार - म्बस्था प्रकार नंबर 27-मी तर हाउल, खसता नंबर ४७२ एवं ४७ मी इस्ता, तब्दतीही वाई- कहीर मत्त्र विक्रं तस्यानक	22-02-1022 र: 12,55,204- (जयमे बरह लाख कम्पन हजार दो वी चार मात्र) के लिए	9
	(अना ओड रॉड्स coox1436), (लखनरू- ललबान डी40- उत्तर प्रदेश) बच्चान के इस और अज्ञत करूरी करिया (करिया के जम के इस और अज्ञत कारूरी करिय)/मुट्टल करबय, मींच देवी (सब-कर्मवर)	भारत नवर 27—81 नर होतवर, अस्ता नवर 42, एवं 47 वा भा इस्ता, तक्तास वाह— वहाद भारत एक लाधनक कावनक उत्तर प्रदेश— 226022	22-02-1022 के. 11,72,935/- (रुपये ग्याह लाख महत्त्य इतार तीन औं मैंग्रेस मात्र) के लिए	ľ
	(जल कोड संख्या coccozes), (जुल्काक- कार प्रदेश) अराक रणें के बता और असर कार्सी	खकरा नंबर 85 मोल कामा पी.पर. महोता बाई मंदिर के जरु मुख्यस्य मुख्यस्य उत्तर प्रदेश:- 244001	20–23–2022 क. 4,44,2367– (इसने चार साध्य चैपालीस इचार दो सी अनुसीस मात्र) के सिए	8
	सारियः (कर्मनाः के नाम के जान और अञ्चल लानूनी सारियः)/ अख्रितेत कुमार तमाँ के जात और अज्ञात करूनी मारितः (सार-कर्मचर के जात अज्ञात करूनों मारितः)		(क्रान पात साम्ब प्यासास इजार य) सा अवृतास मात्र) के इसए	
	(ऋत कोड संख्या COCC3441), (कानपुर-इतत इदेश) सर्देश कुमार (कर्जदात का नाम)/श्रोम लता मारब (कान-फर्जवार)	व्याद नीवर ४२ ए अधानी नीवर १९८४, बुखदुर नकरिया, करनपुर कानपुर सक्सी उत्तर प्रदेश:= 200001	25-04-2022 म. 6,18,627/- (रुपमे ब्रह ताथ अजाद हजार ब्रह वी बनाईस मण) के लिए	8
	(ज्ञा कोड संख्य (000)341), (इलाह घर- उत्तर प्रदेश) पुत्रा ग्रीपर (कार्यरा का नाम)/ उमंग ग्रीथर (शह-भतीवर)	हाजस नंबर १९७२२ (पूपना) और 138 सी / २ (नवा) एमकी मार्ग सिवियत राहम्या नरस्ता और तहसीस सदर होटर प्राइड इन के चल इसाह ५२ उत्तर प्रदेश: — 211001	23-05-2022 स. 16,33,188/- (रुपमे मोला ताख तैतीय हजार एक मी अद्वामी मात्र) के लिए	8
	(अन कोड संख्य cocci720), (गोरखपुर- उत्तर प्रदेश) मीहम्मद असलन (कर्जदार का नाम)/ सुन्दिक केरण (सब-कर्जदार)	गाउ क्रमांक 1436 के भाग में स्थित मकरान गांव माधीर, परगण-प्यारिक, तहसीरत- कर्नेतरांत्र, गींडा उत्तर वरेशन- 271504	21=05=2022 क. 25,32,154/= (कार्य तोईस लाख वतीस बजार एक सें फीजन मात्र) के लिए	8
	(ऋग कोड संख्या coccu452), (बरेली- उत्तर प्रदेश) रथि कुमार (कर्मदार का नाम)/ रमेश कुमार (स्थ-कर्णदार)	खकरा नंबर 42,123,195 गाँक सिरायारीपुर बरेली बरेली उत्तर प्रदेश— 248031	21-06-1022 स. 31,22,806/- (रुपमे इक्सीस रुपक बर्डस हजार आह मी मी मार) के रिस्	8
	(ञ्चन जीव संख्या C0:02383), (क्यनपुर-प्रतः प्रदेश) ग्रह्त गुना (कर्तवर का नाम)/बहार गुना (ज्ञा-कर्नवर)	व्यांट नेंबर 2-382 असानी नंबर 448 के भाग में बोरपुर मध्यस्था कानपुर कानपुर वार्गान उत्तर प्रवेश:- 208021	21-36-2022 र. 15,34,856/- (कामे पंडह लाख मीतिस हजार आठ सी झम्मन मात्र) के लिए	8
	(अत ओह संख्य coccist), (हत्यार्थ-वनसंकत) सुभार सर्ग (कर्मका का गम)गायित्री सर्म (खा-कर्मका)	श्चासत् संख्या (६)८' होन का भाग आप अजानपुर कार्योपुर कथापिंद्र नगर तनर्राभाः— 244713	21-06-2022 च. 5,82,256/- (कपये पाँच लाख समयी कतर हो थीं अदाबर मात्र) के लिए	8
	(ज्ञा कोत संक्रम (02:0051), (कुरच्यार- उत्तर प्रदेश) संगीय सक्सीमा (कर्ववार ज्ञा नाम)/अभिनार' (ज्ञा-भवेतार) (ज्ञान कोत संक्षम (00:02:076), (काग्युस- जार प्रदेश) प्रभाजर आवस्त्री (काग्यर का ग्राम)/	सस्ता नंबर 646/647 जा दिस्सा मनपुर नाराकत पुर देशर व्यार्ड नंबर 34, सुरेख नगर शावन पर, मुणवाबाय मृणवाबाद वहर व्येशा— 244001 महीद नंबर 32' तीसमें मेजिश पर, वेम नंबर 341 तार्ड करचा अपनर्देनेंद्र, शाखनपुर कानपुर कानपुर तारमी वहर	2'-06-2022 स. 6,94,653/- (रुपरे बह लाख चौरानवे हतार बह सी तैंतीय मात्र) के लिए 21-06-2022 स. 12,21,893/-	8
	(अन कोड संक्ष्म COCCLUTE), (कान्युम् चार प्रथम) प्रश्नात कावस्य (कान्युम् कावस्य विकास कावस्य (सह-कार्यक्र) (अन कोड संक्ष्म COCCCC42), (इलाह घर- कार प्रदेश) सत् (कार्यस का न=)/सेना देवी	प्रदेश - 208024 अराजी नंबर 871 मिन पर प्लॉट, मीज खबरों मधारी, परतना एवं तहसील सबर, जाएटि क्लॉसिंग के पास	(रुपने वारह ए छ इक्टीस हजार आउ सी तिरानवे मात्र) के लिए	9
	(स्व कार्य स्वय (2023)) (श्या व - व व व व व व व व व व व व व व व व व	व्यक्ति विकास का जिल्ला के किया के कि व्यक्ति में बंद 265 नित्र और 266 का हिस्सा विकासमान नाम्य बड़ी विकास प्रेरीत प्रेरीत वक्त प्रदेश- 24501	26-07-1022 स. 10,00,845/- (जमरे दस लख्ड नक्षी हत्यार आह. मी पीतलील साज) के लिए 19-07-1022 स. 6,27,093/-	14
			(रूपये यह साख्य राजाईरा हतार तिरानये गात्र) के लिए	
	(अन कोड संख्या 00:00240), (जुर प्रयाद- उत्तर प्रदेश) अहतीय वादय (कर्मदार का नाम)/ प्रदीप कुमार (सह-कर्मदार) (अन कोड संख्या 00:00577), (हत्सार्थ- उत्तर'का) जुमील कुमार (कर्मदार का नाम)	करीं र मेंबर 104, अहरूपद बार जहांगिर, हादी बार निवाद तुरवेद आश्रम, रामपुर रामपुर रहार प्रदेश:- 244901 और रोकर 113 मेंबरवार नेक्स्स आरोज जार का प्राय प्रतिका स्थित के राज्य सर्वाता र विकार सेवर स्थान	19-07-1012 म. 6,26,836/- (क्रमचे बह लाख बन्नीर क्रमार क्रमार में कड़तीस मात्र) के लिए	10
	(ज्ञा काढ राख्या 2022257), (इस्डान— उत्तर चन) जुनत कुमर (कम्बर का नाम) (ज्ञा कोड गंब्य 20221058), (नुरवात— उत्तर प्रदेश) आकात गुरु (कर्नवर क	खेड गंबर 113 मेहराल नेअपूर अरोक नगर जा मान मरिया मरियाओं के पास तहसीत एउँ जिला बरेती उत्तर प्रदेश मरिती उत्तर उद्देश:- 243001	20-07-2022 %. 8,48,424/- (रपरे अब जाख तिस्तीस हवार कार सी नीबीस मात) के तिह 28-07-2022 %. 24,95,552/-	10
	(शर कोड थक्त १८८-१८८३), (शुर कारण जार ४३६) जाकार पूर (कारण कार्य) मा) अंग्रीसा श्रीयास्य (स्व-मर्गसर) (अस कोड प्रोचर (१८५-१८), (खनक-जासमा - उत्तर प्रदेश) अंखंड प्रतय सिंह (कर्मसर का गार)/एप्रियता सिंह विदेश (सह-मर्गसर)	खासरा मंबर 25के दियार गाँग तहसील- सदर कृष्णा बराईद्स होम के पारु रामपुर रामपुर रामपुर रामपुर रामपुर पर'ट मंबर 10वी खासरा मंबर 1217 का हिस्सा बार्ड तहीर भगर सिंह अमार्ड गाँव तहसील सदर राखामक सख्यमक	(कार्य पीयोस शास्त्र अस्ती हजर गाँच सी बायन गाउ) के शिर् 24-07-2022 च. 14,06,939/-	9
		लखनक वता प्रदेश:= 226020	(रुपये अदारह लाख जह हज़ार मी जी उनतालीय मात्र) के लिए	
	(अस्प कोड प्रेक्ष्य COCCCS70), (कोली- उत्तर प्रवेश) सुनील कुमार (कार्वदार का गाम)/सुनेश भेदा (सत-कार्वदार)	मजान में, 214, खबसा नंबर 113 वर भाग, सांके नेक्युर, बरेशी, यहर प्रवेश- 243001	18-07-1012 स. १,61,855/- (क्यमे जी लाख इकारट कहार आंड मी पन्याल मात्र) के लिए	10
	(ज्या कोड संख्या LUK30206), (ज्याना= व्यवसाम= उत्तर प्रदेश) अनित कुमर पुता (कार्नपर व्य मान) (ज्या कोड संख्या (२०२०)(४) (कोरी= जन्म प्रतेश) संस्थान कॉन साथ (कार्नपर के साथ के	युनिट ग्रंडमा पी-३० प्रथम तल नेहरू वृज्यतेष मोमडी नरर सख्यनक तत्तर प्रदेश:- 226010	28-07-1032 स. 9,51,514/- (स्पर्वे टी साख इक्सायत हमर पांच भी चीच्ह नात्र) के सिद् 27-12-1018 स. 93 मा 946/-	10
	(अल कोड संक्रम coccotse), (कोशी- वतर प्रदेश) मेकम्मद परीद छान (कर्नदर के नाम के इस और असन कार्या व्यक्ति)/ कायसर वरती को खान (सह-कर्नदर) के सन और असन अरमुग्ने शक्ति	स्तेत रोबर 628—635 पाके विवार मान नगरण मुंगोरार घरेसी, घरेसी, परेसी—249201	27-12-2018 सं. 32,61,349/- (रुपरे बसीस लाख इकसड हरार तीन सी उनमास मात्र) के लिए	10
	(जन जोड संस्थ coccisos), (कारपुर- उत्तर प्रदेश) निर्देष्ठ निनम (कार्यपर का नमः)/ सेन: निनम, सुचीर कुमार निनम (सह-कर्नसर)	परिवर प्रक्रमः ४२० घर भाग, वी ब्लॉक, चेंत्रना संक्रमा ४० गनकी, कानपुर कानपुर शक्ती उत्तर प्रदेशः – 208022	28-07-1022 स. 10,39,807/- (समने यह साम्र जनामां ह हमार कड़ ही हमा मात्र) के लिए	8
	(अरु ओड संख्या COCC2489), (अन्तुर- उत्तर प्रदेश) रोगे इस (अर्ज्यर का नाम)/शुरी इस, इसिता द्वा (सर्-कर्नसर)	अराजी लंकर 1874/1, पार्ट ऑफ प्रमुक्टेंट, रलॉट लंकर 71, मीका, कारपुर, करनपुर कारपुर ग्रामीम उत्तर प्रदेत⊱ 218021	25-07-2022 फ. 428,0847- (कामे मार साळ तेईस हवार मीरासी मात्र) के मिए	8
	(जन जोड संख्या 00:00634), (कानपुर- रतर प्रदेश) रोगे इस (जनंबर का नाग)/श्रुपी इस, इतिता कृष (जन-करीवर)	र्°ट नंबर 73 आरजी नंबर 1874/1 क क्षिस्त समिगवाँ रोह मीज खेली मुजायदुर व्यानपुर व्यानपुर उम्मीत क्रमर बदेश— 208021	2)-07-1022 स. ३,०६,४५४/- (रुपरे तीन लाख डियासट हजर चार से चीचन मात्र) के लिए	8
	(ऋग कोड संसम् (02:04107), (ब्रह्मार्थ- चररांचल) आसीम मनत (कार्रावर का नाग)/ हर्प मनत, सुमात्र मनत (जल-प्रार्थेचर)	क्रमण मंदर 242/2 मेन का हिस्स प्लॉड रॉवर 3), चीम क्रांशीनी गाँव डिक्टीमा विरावपुर समपुर वहर प्रदेश 24921	27-12-5018 र. 31,48,106/- (रुपये इक्त्रीय राज अइरालीय हतार एक यी बह गत्र) के लिए	10
		हाउस नगरमास्थित। नंबर 23, मोहल्ला- पंजाबी व्यक्तिनी, रेसचे गंग तहसीस पूर्व निसा हरदोई हरदोई हरदोई उत्तर	17-05-1021 V. 2,120,106/-	10
	ार कुलान कर कुला निवास के जात कर प्रदेश) हिमांबु कर्र (कर्नक के नाम (क्रम कींब संस्था COO-1861), (लखनक न ललबान - उत्तर प्रदेश) हिमांबु कर्र (कर्नक के नाम के नाम और अनात कानुमी बारिक)/ विस् कर्म्य, मीरे (स्व-कर्मदर) के नाव और अनात कानुमी बारिक	प्रदेश 24:00°	(कामे इक्कीय ताख गीरा इतार एक घी गी गात्र) के हिए	
	(ज्या कोड रोख्या coccass), (संख्यात- सासवाग- उत्तर प्रदेश) हिमांतु कपुर (कर्नदात के नाम के बात और अजात कानुमी करिए)/ प्रिंस कपुर, निर्मित (स्वर-कर्णदर) के बात और अबात करनुमी	स्था ३६९६४ असमें मेंब २६० मील असी खालपु माराम हवाई जीलपु मीलपु तमा इनेक-222001 व्यक्ति मेंबर २६० मील असी खालपु माराम हवाई जीलपु मीलपु तमा इनेक-222001	(कार्य तम्बर्धना साक गीम हरार एक भी थी गाउ) के हिन्दू 12-05-0021 था. 18,34,966/- (कार्य श्वास तमा भी भी भार नात) के लिद् 23-01-2101 था. 28,83,139/- (कार्य तेवंस तमा कार्य भी भी भार नात) के लिद्	8.